

This question paper contains 7 printed pages]

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. No. of Question Paper : 7113

Unique Paper Code : 6133390053

Name of the Paper : Basics of GST

Name of the Course : B.A. (Vocational Studies) SME

Semester : VIII (NEP)

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : — Answers may be written either in **English** or in **Hindi**, but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :— इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, परन्तु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any five questions.

All questions carry equal marks.

In case of any discrepancy in the language, questions printed in

English language will prevail.

Use of a simple calculator is allowed.

किन्हीं भी पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाषा संबंधी किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी भाषा में मुद्रित प्रश्न ही मान्य होंगे।

साधारण कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति है।

P.T.O.

1. Goods and Services Tax (GST) has eliminated the cascading effect of indirect taxes. Explain with a suitable example. List the central and state taxes that have been subsumed in GST.

वस्तु एवं सेवा कर ने अप्रत्यक्ष करों के 'बहुस्तरीय प्रभाव' को समाप्त कर दिया है। एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इसे स्पष्ट कीजिए। उन केंद्रीय एवं राज्य करों की सूची बनाइए, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर लिया गया है।

2. What is the rationale of GST ? What were the major defects in the structure of indirect taxes before the GST regime ?

वस्तु एवं सेवा कर का औचित्य क्या है ? वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से पहले अप्रत्यक्ष करों की संरचना में मुख्य कमियाँ क्या थीं ?

3. Explain the concept and taxability of Composite Supply and Mixed Supply. Giving reasons, determine whether the supply is a composite or a mixed supply, with the applicable tax rate, in the following situations :

(a) A kit consisting of toothpaste, face wash, and a comb is sold for ₹ 800.

The GST rates applicable to toothpaste, face wash, and a comb are 5%, 18% and 12%, respectively.

(b) A boarding school in Delhi provides educational services, along with meals and hostel services, for ₹ 1,00,000 per quarter. The GST rates applicable to educational, meals, and hostel services are 12%, 18%, and 5%, respectively.

- (c) X, a registered dealer, offers a desktop computer (for ₹ 40,000 before tax) and a wooden table (for ₹ 6,000 before tax) at a consolidated price of ₹ 42,000. The GST rates applicable to desktop computers and wooden tables are 18% and 12%, respectively.

कम्पोजिट सप्लाय और मिक्स्ट सप्लाय की अवधारणा और उन पर लगने वाले टैक्स के बारे में समझाइए। कारण बताते हुए, नीचे दी गई स्थितियों में यह तय करें कि सप्लाय कम्पोजिट है या मिक्स्ट, और उस पर लागू होने वाली टैक्स दर भी बताइए।

- (a) एक किट जिसमें टूथपेस्ट, फेस वॉश और एक कंघी शामिल है, ₹ 800 में बेची जाती है। टूथपेस्ट, फेस वॉश और कंघी पर लागू वस्तु एवं सेवा कर दरें क्रमशः 5%, 18% और 12% हैं।
- (b) दिल्ली में एक बोर्डिंग स्कूल, शैक्षिक सेवाओं के साथ-साथ भोजन और हॉस्टल सेवाएँ भी, प्रति तिमाही ₹ 1,00,000 में प्रदान करता है। शैक्षिक, भोजन और हॉस्टल सेवाओं पर लागू वस्तु एवं सेवा कर दरें क्रमशः 12%, 18% और 5% हैं।
- (c) X, जो एक पंजीकृत डीलर है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर (टैक्स से पहले ₹ 40,000 का) और एक लकड़ी की मेज (टैक्स से पहले ₹ 6,000 की) को ₹ 42,000 की एक संयुक्त कीमत पर बेचता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर और लकड़ी की मेज पर लागू वस्तु एवं सेवा कर दरें क्रमशः 18% और 12% हैं।

4. What is the meaning of the term supply under section 7(1) of the CGST Act, 2017 ? What are the activities which are treated as supply under Schedule I even if the consideration is absent ?

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7(1) के तहत 'आपूर्ति' शब्द का क्या अर्थ है ? वे कौन-सी गतिविधियाँ हैं जिन्हें अनुसूची I के तहत आपूर्ति माना जाता है, भले ही उनके लिए कोई प्रतिफल न हो ?

5. Briefly explain the relevance of determining "Place of Supply" under GST. Determine the Place of Supply and the nature of supply under the following cases, along with relevant provisions :

- (a) Rajat of Kanpur purchased online tickets for the Aqua Water Park in Mumbai.
- (b) OM Ltd., registered in Delhi, conducts training for employees of JAI Ltd., a registered company in Punjab. The training was conducted in Rajasthan.
- (c) Raman, a caterer, provides catering services at a customer's home in Pune, Maharashtra. The caterer is registered in Delhi.

वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत "आपूर्ति के स्थान" को निर्धारित करने की प्रासंगिकता को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित मामलों, संबंधित प्रावधानों के साथ, आपूर्ति के स्थान और आपूर्ति की प्रकृति को निर्धारित कीजिए :

- (a) कानपुर के रजत ने मुंबई में स्थित एक्वा वाटर पार्क के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदे।

(b) दिल्ली में रजिस्टर्ड ओम लिमिटेड, पंजाब की एक रजिस्टर्ड कंपनी जय लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग आयोजित करती है। यह ट्रेनिंग राजस्थान में आयोजित की गई थी।

(c) रमन, जो एक कैटर है, पुणे (महाराष्ट्र) में एक ग्राहक के घर पर कैटरिंग सेवाएँ प्रदान करता है। यह कैटर दिल्ली में रजिस्टर्ड है।

6. Compute the amount of input tax credit admissible to Naman Limited, a registered person in Delhi, in respect of goods procured in March 2026 :

S. No.	Particulars	GST (₹)
1.	Goods given as a free sample	22,000
2.	Packing Jars purchased	55,000
3.	Cement used in the construction of an additional floor of an office building	1,20,000
4.	Goods destroyed by fire	38,000
5.	Equipment used for testing quality	44,000
6.	Material, used for repairs to the office building, was debited to the Profit and Loss Account of said company.	36,000
7.	Stationery purchased	5,000

P.T.O.

दिल्ली में पंजीकृत व्यक्ति, नमन लिमिटेड को मार्च 2026 में प्राप्त माल के संबंध में अनुमेय इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि की गणना कीजिए ;

क्रम संख्या	विवरण	वस्तु एवं सेवा कर (₹)
1.	मुफ्त नमूने के तौर पर दी गई वस्तुएँ	22,000
2.	पैकिंग के जार खरीदे गए	55,000
3.	एक कार्यालय भवन की अतिरिक्त मंज़िल के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट	1,20,000
4.	आग से नष्ट हुआ माल	38,000
5.	गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयुक्त उपकरण	44,000
6.	कार्यालय भवन की मरम्मत के लिए उपयोग की गई सामग्री को, उक्त कंपनी के लाभ-हानि खाते में डेबिट किया गया।	36,000
7.	स्टेशनरी खरीदी गई	5,000

7. What is the due date for filing the Annual Return of GST ? What are the rules regarding late fees for the delayed filing of the Annual Return ?

वस्तु एवं सेवा कर का वार्षिक रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है ? वार्षिक रिटर्न देर से फाइल करने पर लगने वाले विलंब शुल्क से जुड़े नियम क्या हैं ?

8. Write short notes on any *three* out of the following :

- (a) GST Council
- (b) E-Way Bills
- (c) Tax Invoice
- (d) Time of supply
- (e) Intra-State Supply.

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) वस्तु एवं सेवा कर परिषद्
- (b) ई-वे बिल
- (c) कर बीजक
- (d) आपूर्ति का समय
- (e) राज्य के भीतर आपूर्ति.

22